



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)  
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 48]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 26, 1983/अश्विन 4, 1905

No. 48]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 26, 1983/ASVINA 4, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 1983

आ०प्र० 89(अ).—भारत निर्वाचन आयोग का यह  
समाधान हो गया है कि निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आवंटन)  
आदेश, 1968 के पैरा 6 के अनुसार तेलुगु देशम् आंध्र प्रदेश  
विधान सभा के लिए जनवरी, 1983 को हुए साधारण  
निर्वाचन में प्राप्त किए गए अपने मतों के परिणाम स्वरूप  
आन्ध्र प्रदेश में एक राज्याय दल के रूप में मान्यता प्राप्त  
करने के लिए हकदार है;

और निर्वाचन आयोग ने तेलुगु देशम् को आन्ध्र प्रदेश  
एक राज्याय दल के रूप में मान्यता देने और आन्ध्र प्रदेश  
में उक्त दल के लिए "साइकिल" निर्वाचन प्रतीक आरक्षण  
करने का निर्णय किया है;

अतः अब, निर्वाचन आयोग, उक्त प्रतीक आदेश के पैरा  
17 के उप-पैरा (1) के खण्ड (ख) और उप-पैरा (2) के

अनुसरण में भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खण्ड  
3(iii), तारीख 12 अप्रैल, 1982 में का०आ० 29 (अ)  
के रूप में प्रकाशित और समय-समय पर यथा संशोधित  
अपनी अधिसूचना सं० 56/82, तारीख 8 अप्रैल, 1982 में निम्न-  
लिखित संशोधन करता है, अर्थात्:—

- (i) उक्त अधिसूचना की सारणी 2 में, आसाम राज्य से  
सम्बन्धित प्रविष्टियों के उपर, स्तम्भ 1, 2 और 3  
में, "आन्ध्र प्रदेश" "तेलुगु देशम्" "साइकिल" प्रविष्टि  
रखी जाएगी; और
- (ii) उक्त अधिसूचना की सारणी 4 में, 1. आन्ध्र  
प्रदेश के सम्बन्ध, स्तम्भ 2 के नीचे, "1. साइकिल"  
प्रविष्टि हटा दी जाएगी और विद्यमान प्रविष्टियां  
2 से 15 तक को 1 से 14 तक के रूप में पुनः  
संख्यांकित किया जाएगा।

उक्त प्रदत्त मान्यता भी निम्नलिखित शर्तों के अध्वधीन  
है:—

- (i) दल बिना देरी किए निर्वाचन आयोग को अपने  
नाम, मुख्यालय, पदाधिकारी, पता और

राजनैतिक सिद्धान्त नीतियों, लक्ष्य और उद्देश्यों में किसी प्रकार के परिवर्तन तथा किसी अन्य महत्वपूर्ण मामले में किसी प्रकार के परिवर्तन के बारे में संसूचित करेगा;

- (ii) दल जब कभी दल के विधान में किसी प्रकार का संशोधन करता है तो उसकी सूचना सुसंगत दस्तावेजों जैसे संशोधनों पर विचारार्थ बैठक की सूचना, बैठक के लिए कार्यसूची, उस बैठक का कार्यवृत्त जिसमें संशोधन किए गए, आदि के साथ तत्काल निर्वाचन आयोग को सूचित करेगा;
- (iii) दल सभी अभिलेखों जैसे कार्यवृत्त पुस्तकों, लेखा बहियों, सदस्यता रजिस्ट्रों, रसीद बहियों आदि का समुचित रूप से रख-रखाव करेगा;
- (iv) निर्वाचन आयोग के प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उक्त अभिलेखों का किसी भी समय निरीक्षण किया जा सकेगा; और
- (v) निर्वाचन आयोग द्वारा दी गई मान्यता का समय समय पर पुनर्विलोकन किया जा सके।

[56/82-II आदेशसे]

के० गणेशन, सचिव

## ELECTION COMMISSION OF INDIA

### NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd September, 1983

O.N. 89(E).—Whereas the Election Commission of India is satisfied that as a result of its poll performance at the General Election to the Legislative Assembly of Andhra Pradesh State held in January, 1983. Telugu Desam is entitled for recognition as a State Party in the State of Andhra Pradesh in terms of paragraph 6 of the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968.

And whereas the Commission has decided to recognise Telugu Desam as a State Party in the State of Andhra Pradesh and reserve 'Bicycle' for the said Party in Andhra Pradesh State :

Now, therefore, in pursuance of clause (b) of sub-paragraph (1) and sub-paragraph (2) of paragraph 17 of the said Symbols Order, the Election Commission hereby makes the following amendments in its notification No. 56/82 dated 8th April, 1982, published as O.N. 29(E) in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3(iii) dated 12th April, 1982, as amended from time to time, namely:—

(1) In Table 2 of the said notification, in columns 1, 2 and 3, the entries "Andhra Pradesh . . . . . Telugu Desam . . . . . Bicycle" Shall be inserted above the entry relating to the State of Assam; and

(2) In Table 4 of the said notification, against the State of 1-Andhra Pradesh, under column 2, the entry "1. Bicycle" shall be deleted and the existing entries 2 to 15 shall be renumbered as 1 to 14.

The recognition granted above is also subject to the following conditions :—

- (i) The party shall communicate to the Commission without delay and change in its name, head office, office bearers, address and political principles, policies, aims and objectives and any change in any other material matters ;
- (ii) The party shall initiate the Commission immediately whenever any amendments are issued to party constitution along with the relevant documents like the notice for the meeting to consider amendments, agenda for the meeting, minutes of the meeting where the amendments have been carried etc. ;
- (iii) The party shall maintain all the records like Minutes Book, account books, membership registers, receipt books etc. properly ;
- (iv) The said records shall be open for inspection at any time by the authorised representative(s) of the Commission ; and
- (v) The recognition granted shall be reviewed by the Commission from time to time.

[56/82-XI]

By Order,

K. GANESAN, Secy.